

November 07, 2024

To, The Managing Director National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza,5th Floor, Plot No. C/1 G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai-400051 NSE Symbol-SIRCA	To, The General Manager BSE Limited Department of Corporate Services Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001 BSE Scrip Code: 543686
--	--

SUB: NEWSPAPER ADVERTISEMENT REGARDING NOTICE OF BOARD MEETING

Dear Sir/Ma'am,

We are pleased to inform that Pursuant to **Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**, please find enclosed the copies of the advertisement published in editions of "**Financial Express**" (English) and Delhi edition of "**Jansatta**" (Hindi) newspapers titled- **NOTICE**

This is for your information and records.

Thanking you

For Sirca Paints India Limited

Hira Kumar
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above

SIRCA PAINTS INDIA LIMITED
 CIN: L24219DL2006PLC145092
 Regd & Corporate Office: G-82, Kirti Nagar, New Delhi-110015
 Tel: +91-11-42083083
 Website: <https://sircapaints.com>
 Email: cs@sircapaints.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of Company will be held on Thursday, 14th Day of November, 2024 at Registered Office of the Company at G-82, Kirti Nagar, New Delhi-110015, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ending September 30, 2024 and Other Business(s). For Further Details, please visit the website of the Company (www.sircapaints.com), National Stock Exchange of India Ltd (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com).

For SIRCA PAINTS INDIA LIMITED
 Hira Kumar
 Company Secretary & Compliance Officer
 Date: 06/11/2024
 Place: Delhi

INDIA PESTICIDES LIMITED
 CIN No.: L24112UP1984PLC006894
 Regd. Office: 35-A, Civil Lines, Bareilly – 243 001, Uttar Pradesh, India. Tel: +91 0581 2567459
 Corporate Office: Water Works Road, Swarup Cold Storage Compound, Aishbagh, Lucknow - 226 004, Uttar Pradesh
 Tel: +91 0522 2653602 Email: investor@indiapesticideslimited.com Web: www.indiapesticideslimited.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024 (Rs. in Crore)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Half Year Ended	Half Year Ended	Year Ended
		30.09.2024 (Unaudited)	30.06.2024 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1.	Total Income from operations	228.78	220.36	201.97	449.15	403.41	680.41
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	33.6	26.66	26.52	60.28	47.7	82.3
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	33.6	26.66	26.52	60.28	47.7	82.3
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	25.91	19.48	19.5	45.39	35.01	60.17
5.	Total comprehensive income for period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	25.91	19.53	19.6	45.44	35.20	60.37
6.	Equity Share Capital	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						813.39
8.	Earning Per Share (Face Value of Rs. 1 each) (Not annualised)						
	1. Basic	2.25	1.69	1.7	3.95	3.06	5.24
	2. Diluted	2.25	1.69	1.7	3.95	3.06	5.24

SUMMARY OF KEY STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS IS AS FOLLOW: (Rs. in Crore)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Half Year Ended	Half Year Ended	Year Ended
		30.09.2024 (Unaudited)	30.06.2024 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1.	Total Revenue from Operations	228.78	220.36	201.97	449.15	403.41	680.62
2.	Profit before tax	34.26	27.41	26.88	61.67	48.50	83.78
3.	Profit after tax	26.48	20.06	19.83	46.53	35.74	61.19
4.	Total Comprehensive Income	26.48	20.11	19.93	46.58	35.93	61.39

Notes: (1). The above is an extract of the unaudited financial results for the quarter and half ended September 30, 2024 which have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held on 6 November 2024, and subjected to limited review by statutory auditors and filed with the stock exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation 2015, as amended. The full format of the aforesaid financial results is available on the website of the Company, (www.indiapesticideslimited.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com) respectively. (2). The financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("IND AS") prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosures Requirements), Regulations, 2015 (as amended).

For and on Behalf of the Board
 India Pesticides Limited
 Dr. K. Adeppa
 Whole- Time Director
 DIN 08987462

Place: Lucknow
 Date: 06.11.2024

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting in an advertisement in any manner whatsoever.

INVIGORATED BUSINESS CONSULTING LIMITED
 (Formerly Escorts Finance Limited)
 Regd. Office: Plot No. 19, Industrial Area, Phase 2, Chandigarh - 160002 (CIN: L70200CH1987PLC033652)
 Website: www.ibcl.in E-mail: ibcl@ibcl.in; Phone: 0129-2250222, 2564222
 Extract of Statement of Standalone Unaudited Financial Results For the Quarter and Six Month Ended September 30, 2024

S. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended
		30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1.	Total income from Operations	5.87	5.65	26.34
2.	Net Profit/ (loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	(5.52)	(6.06)	(20.23)
3.	Net Profit/ (loss) for the period before Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	(5.52)	(6.06)	(20.23)
4.	Net Profit/ (loss) for the period after Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	(5.52)	(6.06)	(20.23)
5.	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(5.52)	(6.06)	(19.21)
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	4,017.25	4,017.25	4,017.25
7.	Other Equity (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of previous year	-	-	(21,941.63)
8.	Earnings per share (of Rs. 10/- each) for the period (not annualised): Basic & Diluted (Rs)	(0.0137)	(0.0151)	(0.0504)

Notes:-
 1. The turnover/ income is NIL post to change of name and business activities.
 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & Year to date Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and on the Company's website www.ibcl@ibcl.in

By Order of the Board
 For Invigorated Business Consulting Limited
 Sd/-
 Ashok Kumar Behl
 Whole-time Director
 DIN: 10146894

Place: Faridabad
 Date: November 06, 2024

यूनियन बैंक Union Bank of India
 Stressed Asset Management Branch Chandigarh
 SCO 137-138, Madhya Marg, Sector 8C, Chandigarh-160008
 Phone : 0172-2721096, Email Id : ubin0578711@unionbankofindia.bank

Ref. No. 160/2042-25 Date: 05.11.2024

Borrowers: Mr. Rajeshwar Verma S/o Sh. Gopal Verma, House No. 213, Ravindra Enclave, Phase 1, Baltana, Zirakpur, District SAS Nagar (Mohali), Punjab- 140604.
Co-Borrower : Mrs. Urmila Devi W/o Rajeshwar, House No. 213, Ravindra Enclave, Phase 1, Baltana, Zirakpur, District SAS Nagar (Mohali), Punjab- 140604.

Sir/Madam,
SUBJECT : SALE OF PROPERTY BELONGING TO SH. RAJESHWAR VERMA S/O GOPAL VERMA FOR REALIZATION OF AMOUNT DUE TO BANK UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002.
 Union Bank of India, secured creditor, caused a demand notice dated 01.03.2024 under Section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, calling upon you to pay the dues within the time stipulated therein. Since you failed to comply with the said notice within the period stipulated, the Authorized Officer, has taken possession of the movable and immovable secured assets under Section 13(4) of the Act read with Rule 6 and Rule 8 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 14.10.2024.
 Even after taking possession of the secured assets, you have not paid the amount due to Bank. As such it has become necessary to sell the below mentioned property by holding public e- auction after 30 days from the date of receipt of this notice through online mode.
 The date and time of a auction along with the reserve price of the property and the details of the service provider, in which the e auction to be conducted, shall be informed to you separately.
 Therefore, if you pay the amount due to the bank alongwith subsequent interests, costs, charges and expenses incurred by the Bank before the date of publication of sale notice, no further action shall be taken for sale of the property and you can redeem your property as stipulated in section 13 (8) of the Act.

SCHEDULE OF THE PROPERTY

All Parts and Parcels of land and building measuring 0 Bighte 2 Biswe 0 Biswasi, Khewat/Khata No. 409/572,573,574, Khasra No. 744/1 Min (0-9), 770 (5-0), 771 Min (1-6), 775 Min (2-0), 772 Min (2-0), 773 (4-6), 774/1 Min (0-9), 768 (4-10), 769 (5-0), 771 Min (1-5), 772 Min (2-0), 744 (4-0), 775 Min (2-0), Kite 13 rakba 34 Bighte 5 Biswe, share 2/685 i.e. 0 Bighte 2 Biswe 0 Biswasi (Size 22 Feet 6 Inch * 40 Feet = 100 Sq. Yards), Vaka Mauja Village Baltana Tehsil Dera Bassi, District Patiala (Now District SAS Nagar (Mohali)), Hadbast No. 47, as per Jamabandi for the year 1997-98. Owned by Sh. Rajeshwar Verma S/o Gopal Verma as per Sale Deed No. 2615 dated 24.07.2022 in the office of Sub Registrar, Dera Bassi. CERSAI Id- Security Interest Id – 400068427836, Asset Id - 200069543769.

Date: 06.11.2024 Place: Chandigarh Authorised Officer

CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
Aditya Birla Housing Finance Ltd.

Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat 362286
 Branch Office: Aditya Birla Housing Finance Limited, Unit No. 40, 1st Floor, CCC Chandigarh City Centre, VIP Road, Block B, Zirakpur, Punjab-140 603.
 1. ABHFL: Authorized Officer - Vikas Arora- 9878177000 & Amandeep Tanajia- 9711246064, 2. Auction Service Provider (ASP):- M/S O-Procurement Technologies Pvt.Ltd. (Auctiontigger)

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Asset(s) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Aditya Birla Housing Finance Limited/Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorized Officer of Aditya Birla Housing Finance Limited/Secured Creditor, will be put to sale by auction on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 06-12-2024, for recovery of INR. 16,28,423.54/- (Rupees Sixteen Lac Twenty Eight Thousand Four Hundred Twenty Three and Fifty Four Paise Only) as on 11-03-2024 and further interest and other expenses thereon till the date of realization, due to Aditya Birla Housing Finance Limited/Secured Creditor from the Borrowers namely MANTU DAS & NIRMALA DEVI. The reserve price will be INR 10,75,004/- (Rupees Ten Lakh Seventy-Five Thousand Four Only) and the Earnest Money Deposit (EMD) will be INR 1,07,500/- (Rupees One Lakh Seven Thousand Five Hundred Only). The last date of EMD deposit is 05-12-2024. The date for inspection of the said property is fixed on 04-12-2024 between 11:00 am to 04:00 pm.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

ALL THAT PIECE AND PARCEL OF THE PROPERTY MEASURING 00 BIGHA 01 BISWA 04 BISWASI, (60 SQ. YDS.), COMPRISING AT KHEWAT/KHATON NO. 110 BEARING KITTEE - 15(43-11), LAND MEASURING 43 BIGHA 11 BISWA AND 00 BISWASI SHARE TO EXTENT OF 2217420 I.E. 00 BIGHA 01 BISWA 02 BISWASI, KHEWAT NO. 113/229, COMPRISED UNDER KHASRA NO. 109 (1-11), 110(1-1), 111(3-5), 112(1-15), 113(5-12), KITTA 5, LAND MEASURING 13 BIGHA 04 BISWA, SHARE TO EXTENT OF 2/52801 E. 00 BIGHA 00 BISWA 02 BISWASI TOTAL LAND MEASURING 00 BIGHA 01 BISWA 04 BISWASI, SITUATED AT VILLAGE: BITNA, HADBAST NO. 153, TEHSIL: KALKA, DISTRICT PANCHKULA, HARYANA-134109, AND BOUNDED AS:
 EAST: OTHER HOUSE WEST: STREET
 NORTH: STREET SOUTH: HOUSE OF MR. SANJEEV KUMAR

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Aditya Birla Housing Finance Limited/Secured Creditor's website i.e. <https://homefinance.adityabirlacapital.com/properties-for-auction-under-sarfaesi-act> or i.e. <https://sarfaesi.auctiontigger.net>

Date: 07-11-2024 Authorized Officer
 Place: HARYANA (Aditya Birla Housing Finance Limited)

बैंक ऑफ बड़ोदा Bank of Baroda
 Fatehabad Road, Agra

DEMAND NOTICE

Notice Under Section 13(2) Of The Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act 2002. (SARFAESI Act.)

We, the Bank of Baroda have issued Demand Notice under Sec. 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 through our Branch and me as the Authorised Officer. The contents of the same are inter-alia the defaults committed by you in the payment of outstanding amount including principal interest and other charges etc.

Further with reasons, we believe that you are avoiding the service of said Demand Notice issued under the Act. As the Notices sent to you by post, had been returned back to us/ denied to receive, we are now constrained to make this publication of demand notice, as required u/s 13(2) of said Act. The Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. You are hereby called upon to pay Bank of Baroda, within a period of 60 days from the date of publication of this Demand Notice with the aforesaid amount alongwith further interest, cost, incidental expenses, charges etc. failing which, we Bank of Baroda will take necessary action under the provisions of Sec. 13(4) of sale thereof. Further, you are prohibited u/s 13(13) of the said Act from transferring either by way of sale/lease etc. and encumber in any other way, the aforesaid secured assets. Please note further demand notice will be issued. With the Publication of this notice, it will be understood that you have received this notice. **The outstanding dues are mentioned here-in-below :**

Name & Add. of Borrower & Guarantor	Description of Securities	Demand Notice Date	Amount Due As per Notice
Borrower- 1. Mr. Lokesh Kumar Jha S/o Suresh Chand Jha, 2. Mr. Rupesh Kumar Jha S/o Suresh Chand Jha, Add. of both- H. No. 16/21, D/2, Mohalla Harjupura, Tajganj, Agra	Tata Safari Storm EX 4X2, 7 Seater Sky Grey Colour (Vehicle No. UP 80 EU 2960) Chassis No. MAT617025J9E04813, Engine No. VARICOR06ERYJ09751	08.09.2024	14,34,609.23 as on 08.09.2024 + int. & other Exp

Dated : 07-11-2024 Authorised Officer

यूनियन बैंक Union Bank of India
 भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

POSSESSION NOTICE

SAM Branch Lucknow: Union Bank of India, 2nd Floor, Sharda Tower, Kapoorthala, Aliganj, Lucknow Uttar Pradesh 226024, Mail ID: Ubin0578720@unionbankofindia.bank

Whereas the undersigned being the authorized officer of Union Bank of India, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice calling upon the following borrowers to repay the amount mentioned in the notice being within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken **Symbolic possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act 2002 read with rule 8 of the said rules.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Union Bank of India for an amount of dues outstanding together with interest thereon with costs and charges. **The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset.**

Sl. No.	Name & Address of Borrower	Description of SECURITY	Date of demand Notice/ date of possession (SYM/PHY)/ amount Due
1.	1. M/s Shubh Aarambh Builders Private Limited (Borrower), Address 1/21 Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh 2. Mrs. Ekta Mishra W/o Mr. Anshu Mishra (Director and Guarantor), Address: 146, Shiv Nagar Colony, Rai Bareilly Road, Near Gopi Palace, Dist: Faizabad-224001, Uttar Pradesh 3. Mr. Anshu Mishra S/o Mr. Ram Chandra Mishra (Director and Guarantor), Address: Flat Number A1-1301, MI Rustie Court, Gomti Nagar Extension, Sector-6, Lucknow, Uttar Pradesh	Residential Flat Number 210, 2nd Floor, Amanda Heights, situated at Plot Number 00263, Khasra Number 55 Min Jhumla, Village - Ganeshpur, Rahmanpur, Dist- Lucknow, Uttar Pradesh measuring 1235 Sq Ft., Boundary of Property as per Sale Deed- North:- Passage, South:- Plot, East:- Flat Number 209, West:- Flat Number 211	22.02.2024 05.11.2024 (Symbolic) Rs. 35,78,870.23 as on 31.01.2024 and interest from 08.01.2024 and other expenses thereon

Date - 07.11.2024, Place - Lucknow Authorised Officer Union Bank of India

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-I/II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH-(DRT 3)
 Ground Floor, SCO 33-34-35, Sector-17A, Chandigarh-160017

DEMAND NOTICE (THROUGH PUBLICATION) NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961.

RC/714/2018 Dated : 22.08.2024

PUNJAB NATIONAL BANK
VERSUS
SIMRANJEET SINGH

To,
 (CD 1) Sh. Simranjeet Singh S/o Surinder Singh, R/o Village Ruknewala Kalan, Post Office Makhu, Tehsil Zira, District Ferozepur, Punjab.
 (CD 2) Sh. Kanwarjeet Singh S/o Gurdial Singh, R/o Village Ruknewala Kalan, Post Office Makhu, Tehsil Zira, District Ferozepur, Punjab. (Guarantor)

This is to notify that as per the Recovery Certificate issued in pursuance of orders passed by the Presiding Officer, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 3) in OA/2511/2017 an amount of Rs. 12,96,081.05 (Rupees Twelve Lacs Ninety Six Thousand Eighty One & Paise Five Only) along with pendentelitte and future interest @ 11.60% simple interest yearly w.e.f. 21.07.2016 till realization and costs of Rs. 35,000/- (Rupees Thirty Five Thousand Only), has become due against you (Jointly and severally/Fully/Limited).

2. You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 and Rules thereunder.

3. Whereas it has been shown to the satisfaction of Tribunal that it is not possible to serve you in the ordinary way, therefore this notice is given by this publication directing you to put in appearance before this tribunal on 27.11.2024 at 10:30 AM.

4. You are hereby ordered to declare on an affidavit the particulars of your assets on or before the next date of hearing.

5. In addition to the sum aforesaid, you will also be liable to pay:
 (a) Such interests as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate/ execution proceedings.
 (b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date
 22.08.2024
 Recovery Officer
 DEBTS Recovery Tribunal Chandigarh, DRT-3

SUPREME COMMERCIAL ENTERPRISES LIMITED

Registered Office : Y-4-A-C, Loha Mandi, Naraina, New Delhi - 110028
 CIN: L51909DL1983PLC016724
 Ph: 9350150766
 Email: supremecommercial@gmail.com

Notice

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 14th November, 2024 at the registered office of the Company at Y-4-A-C, Loha Mandi, Naraina, New Delhi- 110028 at 03:00 PM. to approve and consider Un-audited Financial Result (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2024.

Further in pursuance of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, Trading Window for dealing in securities of the Company is closed from 01st October, 2024 and will remain closed up to 48 hours of the conclusion of the Board Meeting.

The information in the above notice is also available on the website of the Company www.supremecommercial.co.in.

By the Order of the Board
 For Supreme Commercial Enterprises Limited
 (Ishika Garg)
 Company Secretary

Date: 06.11.2024
 Place: Delhi

Bank of India
 Relationship beyond banking

E-AUCTION SALE NOTICE - E-Auction of Properties: 20.11.2024
 NEW DELHI ASSET RECOVERY-6102, 3rd Floor, Star House, Behind PVR Plaza, Connaught Circus, New Delhi, New Delhi-110001
 Phone : 01123755605 E-mail : AssetRecovery.NewDelhi@bankofindia.co.in

E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Physical Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Bank of India, the Secured Creditor, will be sold on "As is Where is", "As is What is" and (Whatever there is)" basis on 20-11-2024 11:00 to 17:00 for the recovery of respective amount, due to the Bank of India (Secured Creditor) from the respective Borrower(s) and the Guarantor(s) as specified here under:

Sr. No.	Name of Borrower	TOTAL DUES FOR RECOVERY	Description of the immovable properties	a. Reserve Price b. EMD c. Incremental Bid	Date & Time for inspection of the properties
1	M/s Kedia Jewellers Pvt. Ltd. 1. Mr. Achal Kedia (Guarantor) 2. Mrs. Madhu Kedia (Guarantor) 3. Goldline Jewels Pvt. Ltd. (Corporate guarantor)	Rs. 185.23 Lakh plus UCI since 28.03.2016 and other charges	Commercial shop at Third Floor (eastern portion) of Commercial Property bearing Municipal No. 3272, Ward No. XVI in Block-P, Gali No. 27, built on Khasra No. 2657/2616, Situated at Basti Reghar, Beadonpura, Karol Bagh New Delhi -110005 owned by M/s Goldline Jewels Pvt. Ltd., measuring 225 Sq. yards. Possession: Physical	a. Rs. 26.73 Lakhs b. Rs. 2.67 Lakhs c. Rs. 20,000/-	18-11-2024 between 11.00 am to 3.00 pm
2	M/s Shivam Gems and Jewellers Private Limited, Mr. Shyam Sunder Chaturvedi, Mr. Sanjeev Chaturvedi, Mrs. Pooja Chaturvedi	Rs. 551.71 Lakh plus UCI since 27.12.2014 and other charges	Leasehold property no. 2577, second Floor, Ward no.XVI, Block No.-M, Khasra No.-1310/272, Gali No. 5, situated at Beadonpura, Naiwala Estate, Karolbagh, New Delhi- 110005. The property is in the name of Mrs. Pooja Chaturvedi W/o Sh. Sanjeev Chaturvedi. Area 581 sq ft Possession: Physical	a. Rs. 47.50 Lakhs b. Rs. 4.75 Lakhs c. Rs. 20,000/-	18-11-2024 between 11.00 am to 3.00 pm

The e-auction will be conducted through Bank's approved service provider M/s SISL Infotech Pvt. Ltd. at their web portal <https://www.ebkray.in>. The interested bidders shall ensure that they get themselves registered on the e-auction website and deposit earnest money in the virtual wallet created by service provider as per guidelines provided on <https://www.ebkray.in>

The interested bidders who require assistance in creating Login ID & Password, uploading data, submitting Bid documents, Training/ Demonstration, Terms & conditions on online Inter-se Bidding etc., may visit the website <https://www.ebkray.in>

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Bank of India, the Secured Creditor's website <https://www.bkid.co.in/> and website <https://www.ebkray.in>

Statutory Notice under Rule 8(6) of the SARFAESI Act: This is also a notice to the Borrower/Guarantor of the above loan under Rule 8(6) of the SARFAESI Act 2002 about holding of Auction for the sale of secured assets on above mentioned date.
 Enquiry: Vipin Sharma, Chief Manager, Mobile No. 8112268734, Vipin Sharma, Mobile No. 8112268734

Date: 06-11-2024, Place, New Delhi Authorised Officer, Bank of India

INDIA PESTICIDES LIMITED

CIN No.: L2412UP1984PLC008994
 Regd. Office: 35-A, Civil Lines, Bareilly - 243 001, Uttar Pradesh, India. Tel: +91 0581 2567459
 Corporate Office: Water Works Road, Swarup Cold Storage Compound, Aishbagh, Lucknow - 226 004, Uttar Pradesh
 Tel: +91 0522 2653602 Email: investor@indiapesticideslimited.com Web: www.indiapesticideslimited.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024 (Rs. in Crore)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2024 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
1.	Total Income from operations	228.78	220.36	201.97	449.15	403.41	680.41
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	33.6	26.66	26.52	60.28	47.7	82.3
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	33.6	26.66	26.52	60.28	47.7	82.3
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	25.91	19.48	19.5	45.39	35.01	60.17
5.	Total comprehensive income for period (Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	25.91	19.53	19.6	45.44	35.20	60.37
6.	Equity Share Capital	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						813.39
8.	Earning Per Share (Face Value of Rs. 1 each) (Not annualised)						
	1. Basic	2.25	1.69	1.7	3.95	3.06	5.24
	2. Diluted	2.25	1.69	1.7	3.95	3.06	5.24

SUMMARY OF KEY STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS IS AS FOLLOW: (Rs. in Crore)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2024 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
1.	Total Revenue from Operations	228.78	220.36	201.97	449.15	403.41	680.62
2.	Profit before tax	34.26	27.41	26.88	61.67	48.50	83.78
3.	Profit after tax	26.48	20.06	19.83	46.53	35.74	61.19
4.	Total Comprehensive Income	26.48	20.11	19.93	46.58	35.93	61.39

Notes: (1). The above is an extract of the unaudited financial results for the quarter and half ended September 30, 2024 which have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held on 6 November 2024, and subjected to limited review by statutory auditors and filed with the stock exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation 2015, as amended. The full format of the aforesaid financial results is available on the website of the Company, (www.indiapesticideslimited.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com) respectively. (2). The financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("IND AS") prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations, 2015 (as amended).

For and on Behalf of the Board
India Pesticides Limited
 Sd/-
Dr. K. Adeppa
 Whole- Time Director
 DIN 08987462

Place: Lucknow
 Date: 06.11.2024

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-II, दिल्ली के समक्ष

वर्षापूर्व तारीख, नौकन तारा लिमिटेड, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 और 13 के तहत सूचना

DA NO 133/2021 तिथि: 04.07.2024

बैंक ऑफ इंडिया विरुद्ध टीडीडी कोर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य (प्रतिवादीगण)

सेवा में,
 प्रतिवादीगण
श्री. मेसर्स मद्रुप लिमिटेड एंड मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड
 मद्रुप कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड 144 एम सी रोड बंगलोर - 560001
 अन्य पता: ए-408 दगमाल टॉवर नारिमांग पॉइंट मुंबई-400021

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक (को) ने आपके विरुद्ध रु. 76,85,95,766.33/- (रुपय छिहत्तर करोड़ पचासी लाख पचास हजार सात सौ शियासत तथा पैंस तीस लाख मात्र) की वसूली के लिए एक वाद प्रस्तुत किया है तथा आवेदक न्यायाधिकरण को संतोषदायक रूप से यह दर्शाया कि युवा है कि आपके सामान्य रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विचारपूर्वक के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको विना 07-01-2025 को पूर्व, 10.30 बजे इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी और उस प्रयोजन हेतु -
 (i) सभी आवेदकों/विवादों "Cisco Webex" एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे;
 (ii) नामांकित पीआरटी अधिकारी/रजिस्ट्रार द्वारा नामों की सुनवाई की अगली तिथि हेतु "Meeting ID" तथा "Password" अगली तारीख से एक दिन पहले डीआरटी के ऑफिकर को ईमेल द्वारा भेजा जाएगा। "drf.gdn" पर सांजिक सूचना शीक के अंतर्गत उपलब्ध होगा। (iii) किसी कार्यभार की स्थिति में, अधिवक्ता/विवादी संबंधित पदाधिकारी से फोन नंबर 23744478 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 04 नवंबर, 2024 को दिया गया।
 न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा,
 अनुभाग अधिकारी, डीआरटी-II, दिल्ली

SIRCA PAINTS INDIA LIMITED
 CIN: L24129DL2006PLC145092
 Regd & Corporate Office: G-82, Kirti Nagar, New Delhi-110015
 Tel: +91-11-42083083
 Website: https://sircapaints.com
 Email: cs@sircapaints.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements), Regulation, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of Company will be held on Thursday, 14th Day of November, 2024 at Registered Office of the Company at G-82, Kirti Nagar, New Delhi-110015, inter-alia, to Consider and approve the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ending September 30, 2024 and Other Business(s).

For Further Details, Please visit the website of the Company (www.sircapaints.com), National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com).

For SIRCA PAINTS INDIA LIMITED
 Sd/-
 Hira Kumar
 Company Secretary & Compliance Officer
 Date: 06/11/2024
 Place: Delhi

INVIGORATED BUSINESS CONSULTING LIMITED

(Formerly Escorts Finance Limited)
 Regd. Office: Plot No. 19, Industrial Area, Phase 2, Chandigarh - 160002 (CIN: L70200CH1987PLC033652)
 Website: www.ibcl.ltd E-mail: ibcl@ibcl.ltd Phone: 0129-2250222, 2564222
 Extract of Statement of Standalone Unaudited Financial Results For the Quarter and Six Month Ended September 30, 2024

S. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended
		30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	
1	Total income from Operations	5.87	5.65	26.34
2	Net Profit/ (loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(5.52)	(6.06)	(20.23)
3	Net Profit/ (loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(5.52)	(6.06)	(20.23)
4	Net Profit/ (loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(5.52)	(6.06)	(20.23)
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(5.52)	(6.06)	(19.21)
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	4,017.25	4,017.25	4,017.25
7	Other Equity (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of previous year	-	-	(21,941.63)
8	Earnings per share (of Rs. 10/- each) for the period (not annualised): Basic & Diluted (Rs)	(0.0137)	(0.0151)	(0.0504)

Notes:-
 1. The turnover/ income is NIL post to change of name and business activities.
 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & Year to Date Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and on the Company's website www.ibcl@ibcl.ltd

By Order of the Board
For Invigorated Business Consulting Limited
 Sd/-
Ashok Kumar Behl
 Whole-time Director
 DIN: 10146894

POST-OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THERETO, FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

NAVKAR CORPORATION LIMITED

REGISTERED OFFICE: 205-206, J. K. CHAMBERS, SECTOR 17, VASHI, NAVI MUMBAI-400705, MAHARASHTRA
 TELEPHONE: 022-27668223, 022-4800 6500, FAX: 022-4800 6509. CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: L63000MH2008PLC187146
 WEBSITE: www.navkarcorp.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 3,91,34,988 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10 EACH, REPRESENTING 26.00% OF THE VOTING SHARE CAPITAL OF NAVKAR CORPORATION LIMITED (THE "TARGET COMPANY") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY BY JSW PORT LOGISTICS PRIVATE LIMITED ("ACQUIRER") ALONG WITH JSW INFRASTRUCTURE LIMITED ("PAC") IN ITS CAPACITY AS PERSON ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER, PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH REGULATIONS 3(1) AND 4 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THERETO (THE "SEBI (SAST) REGULATIONS") AT A PRICE OF INR 105.32 PER EQUITY SHARE (THE "OFFER")

This post-offer advertisement is being issued by JM Financial Limited ("Manager to the Offer"), for and on behalf of the Acquirer and PAC in respect of the Offer to the Public Shareholders of the Target Company, pursuant to and in compliance with Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations ("Post-Offer Advertisement"). The detailed public statement dated 3 July 2024 with respect to the aforementioned Open Offer was published on 4 July 2024 in (i) Financial Express (English daily), (ii) Jansatta (Hindi daily) and (iii) Navshakti (Marathi Daily), being the regional language newspaper of the place where the equity shares of the Target Company are listed and where registered office of the Company is situated) ("Detailed Public Statement" or "DPS").

This Post-Offer Advertisement should be read in continuation of, and in conjunction with: (a) the Public Announcement dated 27 June 2024 ("PA"), (b) the DPS, (c) the Letter of Offer dated 3 October 2024 ("LOF"), (d) the pre-offer advertisement and corrigendum to the DPS dated 10 October 2024 with respect to the Open Offer, published on 11 October 2024 in all newspapers in which DPS was published ("Pre- Offer Advertisement-cum-Corrigendum") and (e) the notice for the attention of the Public Shareholders dated 11 October 2024 in connection with the Open Offer ("Notice to the Shareholders").

The Post Offer Advertisement is being published in all such newspapers in which the DPS, Pre- Offer Advertisement-cum-Corrigendum and Notice to the Shareholders were published.

Capitalized terms used but not defined in this Post- Offer Advertisement have the meanings assigned to such terms in the LOF and the Pre- Offer Advertisement-cum-Corrigendum. The Public Shareholders are requested to kindly note the following information related to the Offer:

1. Name of the Target Company	Navkar Corporation Limited
2. Name of the Acquirer and PAC	JSW Port Logistics Private Limited (Acquirer) JSW Infrastructure Limited (PAC)
3. Name of the Manager to the Offer	JM Financial Limited
4. Name of the Registrar to the Offer	Link Intime India Private Limited.
5. Date of the opening of the Offer	Monday, 14 October 2024
Date of the closure of the Offer	Friday, 25 October 2024
6. Date of payment of consideration	Tuesday, 5 November 2024

7. Details of the acquisition:

Sr. No.	Particulars	Proposed in the Open Offer Document	Actuals
7.1	Offer Price	INR 105.32 per Equity Share	INR 105.32 per Equity Share
7.2	Aggregate number of shares tendered	3,91,34,988 ⁽¹⁾	1,299 ⁽²⁾
7.3	Aggregate number of shares accepted	3,91,34,988 ⁽¹⁾	1,299 ⁽²⁾
7.4	Size of the Offer (Number of shares multiplied by offer price per share)	INR 4,12,16,96,937	INR 1,36,81,01,68

Number	% of Voting Share Capital	Number	% of Voting Share Capital
7.5	Shareholding of Acquirer before the SPA and PA	Nil	Nil
7.6	Shares acquired by way of share purchase agreement (SPA) ⁽¹⁾	10,59,19,675	70.37%
7.7	Shares acquired by way of Offer	3,91,34,988 ⁽¹⁾	26.00%
7.8	Shares acquired after the DPS	Nil	Nil ⁽¹⁾
7.9	Post-Offer shareholding of the Acquirer	14,50,54,663 ⁽¹⁾	96.37%
7.10	Pre-Offer shareholding of the Public Shareholders ⁽²⁾	4,44,79,506	29.55%
7.11	Post-Offer shareholding of the Public Shareholders	53,44,518 ⁽¹⁾	3.55%

- Notes:
- Assuming full acceptance under the Open Offer.
 - The Acquirer, pursuant to the Share Purchase Agreement and in accordance with the applicable law including the SEBI (SAST) Regulations including Regulation 22(2) of the SEBI (SAST) has acquired on October 11, 2024, in a single tranche, from the Sellers 10,59,19,675 Equity Shares of the Target Company representing 70.37% of the Voting Share Capital and nominated certain individuals for appointment as directors on the board of directors of the Target Company (while certain directors of the Target Company who were members of the promoter and promoter group of the Target Company have resigned from the board of directors of the Target Company). Accordingly, the Acquirer has acquired control over the Target Company.
 - All Equity Shares were tendered and accepted in dematerialized form.
 - All 1299 Equity Shares tendered were validly tendered in the Open Offer.
 - Apart from the Equity Shares specified in Sr. nos. 7.6 and 7.7, the Acquirer has not acquired any other Equity Shares.
 - Pre-offer shareholding of Public Shareholders is as on September 27, 2024, as disclosed in the LOF.
 - Computed assuming that the entire 26% of the Voting Share Capital is tendered and accepted in the Offer.

8. Other Information:
- The Acquirer and PAC and their respective directors, in their capacity as directors of the Acquirer or PAC (as the case may be), severally and jointly accept full responsibility for the information contained in this Post- Offer Advertisement and also accept responsibility for the obligations of the Acquirer and the PAC set out in the SEBI (SAST) Regulations.
 - All references to "Rs." or "INR" are references to the Indian Rupee.
 - A copy of this Post- Offer Advertisement is expected to be available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, NSE at www.nseindia.com, and BSE at www.bseindia.com, and the registered office of the Target Company.

Issued on behalf of the Acquirer and the PAC by the Manager to the Offer:

MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER
<p>JM FINANCIAL</p> <p>JM Financial Limited 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400025, India. Tel. No.: +91 22 6630 3030; Fax No.: +91 22 6630 3330 Email ID: navkarcorp.openoffer@jmf.com Contact Person: Ms. Prachee Dhuri SEBI Registration Number: INM000010361</p>	<p>LINKIntime</p> <p>Link Intime India Private Limited Corporate Identity Number: U67190MH1999PTC113688 C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West) Mumbai, Maharashtra - 400083, India Tel: +91 81081 14949 / Fax: +91 22 4918 6060 Email: navkarcorp.off@linkintime.co.in Contact Person: Ms. Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration Number: INR000004058</p>

Place: Mumbai
 Date: November 06, 2024

अदालती सूचना

आज्ञा से श्रीमती प्रीतु शर्मा, अमर जिला जज (वाणिज्यिक), देहरादून

वाणिज्यिक वाद सं 05 वष 2024

यूको बैंक शाखा स्थित सहस्त्राचार रोड, पोस्ट ऑफिस कुल्लान, देहरादून-248001, उत्तराखण्ड द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि एवं हस्ताक्षरी, श्री अश्वनी शर्मा पुत्र सुनील कुमार शर्मा केयर ऑफ यूको बैंक, सहस्त्राचार रोड, पोस्ट ऑफिस कुल्लान, देहरादून - 248001

... वादी
 ... मेसर्स ब्रदर्स चिम एवं अन्य

नोटिस अनाम

- मेसर्स ब्रदर्स चिम लिमिटेड 196/138, सूरी मॉडल, कालिंदी एक्सप्रेस, जी.एम.एच. रोड, देहरादून द्वारा प्रोप्राइटर श्रीमती लता सिंह।
- श्रीमती लता सिंह अपनी भी राशन चिठ्ठी नम्बर 01-5/96, सेक्टर 16, रोहिणी, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली, 110089, बहसियत रूप में प्रोप्राइटर ब्रदर्स चिम।

... प्रतिवादीगण

चूंकि वादी ने आपके विरुद्ध एक वाद रूप में न्यून 7,67,479/- की वसूली हेतु न्यायालय में याचिका दायर की है। आपके एतद द्वारा आग्रह किया जाता है कि आप स्वयं या ऐसे अधिकारी द्वारा सम्यक प्रमाण उपस्थित हो और वाद संबंधित रूप से आपका प्रमाण के उत्तर देने में समर्थ हो या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सत प्रमाणों का उत्तर देने में समर्थ हो दिनांक 06.01.2025 को प्रातः 10 बजे देहरादून में वाद का प्रतिवाद करने के लिए उत्तम न्यायालय में उपस्थित हो या विवादक पर हेतु तिथि दिया है।

आपको यह सूचना दी जाती है कि पूर्व में जॉर्ज दिवस पर आपकी अनुपस्थिति में चूक होने पर वाद की कार्यवाही एकतरफा चली जायेगी। एक जोखिम यह है कि आपका प्रमाण प्रमाण के माध्यम से उल्टे को सबूत करने के लिए अवरुद्ध किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर सहित आज दिनांक 18.10.2024 को जारी किया गया।

आज्ञा से ब्रह्मचर्य न्यायालय अमर जिला जज (वाणिज्यिक), देहरादून।

सुप्रीम कमर्शियल इन्टरप्राइजेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: वाई-4-ए.सी, लोहा मण्डी, नारायणा, नई दिल्ली-110028
 CIN: L51909DL1989PLC016724
 Ph: 8350150766
 Email: supremecommercial@gmail.com

सूचना

सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के विनियमन 29 साथ में पठित विनियमन 47 (सूची दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन 2015, के अनुसार एन एचएलए सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी के 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक के अनअंकेति (एकीकृत एवं संगठित) वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन करने हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक वीरवार, 14 नवम्बर, 2024 को दोपहर 03:00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय वाई-4-ए.सी, लोहा मण्डी, नारायणा, नई दिल्ली-110028 में आयोजित की जायेगी।

पुनः सेबी (इन्डियन ट्रेडिंग की रोकथाम) विनियमन, 2015 के अनुसार एन एचएलए के प्रतिभूतियों की लेन-देन व्यापार शिफ्ट की 01 अक्टूबर, 2024 एवं कम्पनी के की की बैठक की समाप्ति के 48 घण्टों तक बंद रहेगी।

उपरोक्त सूचना की जानकारी साथ में कम्पनी की वेबसाइट www.supremecommercial.co.in पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते सुप्रीम कमर्शियल इन्टरप्राइजेज लिमिटेड हस्ताक्षर/ (ईशिका गर्ग) कम्पनी सचिव

तिथि: 06.11.2024
 स्थान: दिल्ली

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

आदेश -V, नगरिक प्रक्रिया सहित, 1908 के नियम 20 के तहत पठित न्यायाधिकरण नियमावली, 2016 को नियम 38 के अंतर्गत न्यायालय सेवा द्वारा सूचना

मानविय गण्टीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली, पीट-II के समक्ष

आई.सी. नं. 264 (पीवी)/2024, मनीषा पाण्डेय एवं अन्य वामन

वेल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपर्स प्रा.लि.

सेवा में,
 वेल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपर्स प्रा.लि. विसका पंजीकृत कार्यालय 715, नीरम हाउस, 21, के. जी. मार्ग, कान्त चंसेर, नई दिल्ली-110001 में है

(कॉर्पोरेट डेव्लर)

जिस कि श्रीमती मनीषा पाण्डेय ने 15 अक्टूबर को याचिका दायर करके प्रक्रिया शुरू करने के लिये दिलाया था दिवालिया (फ्लिक्रकॉन) प्रक्रिया को आवेदन। नियमावली, 2016 के नियम 4 के साथ पठित दिलाया था दिवालिया सहित, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत एक सम्पत्ती आवेदन आई सी. नं. 2024 का 264 दायित्व किया है। जैसा कि मानविय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, प्रमाण पीट-II (पीट-II) ने 29.05.2024 को सूचना जारी किया है। पुनः आदेश तिथि 25.09.2024 के माध्यम से मानविय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, प्रमाण पीट-II (पीट-II) ने न्यायाधिकरण को न्यायालय सेवा के माध्यम से उल्टे को सबूत करने के लिये अवरुद्ध किया जायेगा।

ध्यान दें कि उक्त न्यायाधिकरण को 12.11.2024 को मानविय गण्टीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली, प्रमाण पीट-II (पीट-II) के साथ सूचीकृत किया जायेगा। इसमें आप प्रतिनिधित्व अथवा किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं। पुनः ध्यान दें कि उक्त तिथि को आप की उपस्थिति में चूक होने पर आवेदन की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जायेगी।

मनीषा पाण्डेय एवं अन्य (वायिकरकॉन-मन) द्वारा उक्त अधिकाधिकारक निलय

मो. नं. 9211387487, ई-मेल: Mayank@alphategal.in

Classifieds

FROM ADVERTISING TO OVERSELLING.

CLASSIFIED AD DEPOT (CAD)

Book classified ads at your nearest Express Group's authorised Classified Ad Depots

EAST

PATPARGANJ : CHAVI ADVERTISERS, Ph.: 9899701024, 22090987, 22235837, **PREET VIHAR** : AD BRIDGE COMMUNICATION, Ph.: 9810029747, 42421234, 22017210, **SHAKARPUR** : PARICHAY ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350309890, 22519890, 22549890

WEST

JANAKPURI : TRIMURTI ADVERTISERS, Ph.: 9810234206, 25530307, **KAROL BAGH (REGHARPURA)** : K R ADVERTISERS, Ph.: 9810316618, 9310316618, 41547697, **KARAM-PURA** : GMJ ADVERTISING & MARKETING PVT. LTD., Ph.: 9310333777, 9211333777, 9810883377, **NEW MOTI NAGAR** : MITTAL ADVERTISING, Ph.: 25178183, 9810538183, 9555945923, **MOTI NAGAR** : UMA ADVERTISERS, Ph.: 9312272149, 8800276797, **RAMESH NAGAR** : POSITIVE ADS, Ph.: 9891195327, 9310066777, 65418908, **TILAK NAGAR** : SHIVA ADVERTISERS, Ph.: 9891461543, 25980670, 20518836, **VIKAS PURI** : AAKAR ADVT. MEDIA Ph.: 9810401352, 9015907873, 9268796133

CENTRAL

CHANDNI CHOWK : RAMNIWA ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9810145272, 23912577, 23928577, **CONNAUGHT PLACE** : HARI OM ADVERTISING COMPANY Ph.: 9811555181, 43751196

NORTH

TIS HAZARI COURT : SAI ADVERTISING, Ph.: 981117748 KINWAY CAMP : SHAGUN ADVERTISING, Ph.: 9818505505, 27458589, **PAHAR CHEST (OPP. MORRIS NAGAR POLICE STATION)** : MAHAN ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350304609, 7042590693, **PITAMPURA (PRASHANT VIHAR)** : PAAVAN ADVERTISER Ph.: 9311564460, 9311288839, 47057929

SOUTH

CHATTARPUR : A & M MEDIA ADVERTISING, Ph.: 9811602801, 65181100, 26301008, **KALKAJI** : ADWIN ADVERTISING, Ph.: 981111825, 41605556, 26462690, **MALVIYA NAGAR** : POJJA ADVERTISING & MARKETING SERVICE, Ph.: 9891087000, 24331091, 46568806, **YUSUF SARAI** : TANEJA ADVERTISEMENT & MARKETING Ph.: 9810843218, 26561814, 26510090

NCR

FARIDABAD (NEELAM FLYOVER) : AID TIME (INDIA) ADVERTISING, Ph.: 981195834, 0129-2412798, 2434654, **FARIDABAD (NIT, KALYAN SINGH CHOWK)** : PULSE ADVERTISING, Ph.: 9818078183, 9811502088, 0129-4166498, **FARIDABAD** : SURAJ ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9810680954, 99535266